

### **February 8, 2024**

The Manager Corporate Relationship Department BSE Limited Floor 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai – 400 001

**BSE Scrip Code-533267** 

Fax No.: 022-2272 3121/1278/1557/3354

The Manager Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra (East) Mumbai - 400 051

**NSE Scrip Symbol: CANTABIL and Series:** 

EQ

Fax No.: 022-26598237/38

**Sub:** Newspaper advertisement (s)

Ref: Financial Results for the Quarter ended on December 31, 2023

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached the copy of newspaper advertisement of Financial Results of the Company for the Quarter ended on December 31, 2023, published in Business Standard on February 8, 2024.

You are requested to take the above on record.

### For Cantabil Retail India Limited

POONAM CHAHAL

Digitally signed by PODNAM CHAHAL

Dix: c=lly\_o=Personal,
pseudonym=caY4zagRSU/2HkgdoityPPL9iupaNV,
2.5.4.20=c18.a3d locafdee/576/fee/128555990592588957
bdc1040fc552e447e81bbc\_postalCode=110865, st=Delhi,
psirilNumber=10-cbah7bdcb436978d76cf531cd10f18e27
c139ad/78cf3ae0dcb8febd5e35d, cn=PODNAM CHAHAL

Date: 20240.208 1130848 H9330

Poonam Chahal Company Secretary & Compliance Officer FCS No. 9872

Encl: as above

### CANTABIL RETAIL INDIA LTD.

#### Quarter Ended 31.12.2023 30.09.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.03.2023 Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Total income from operations 2778.06 2735.08 8212.87 7858.87 10725.11 Net Profit / (Loss) for the period 38.12 33.70 24.20 128.06 76.26 125.20 (Before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax 38.1 33.70 24.20 128.00 76.26 125.20 (After Exceptional and / or Extraordinary items Net Profit / (Loss) for the period after tax 17.73 111.26 28 76 102 69 55.86 32 7! (After Exceptional and / or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (After tax) 32 7! 28.76 17.73 102 69 55.86 111.26 and other Comprehensive Income (After tax)] 739.10 739.10 739.10 739.10 739.10 739.10 **Equity Share Capital** Other Equity excluding Revaluation Reserve 2310.58 Earnings per share (Of ₹ 10/- each) (For continuing and discontinued operations) 0.44 0.39 0.76 1.51 0.24 1.39 Diluted 1.51

### Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results for the Quarter & Nine months ended 31st December, 2023, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- The Above unaudited financial results have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors at their meeting held on 7th February 2024 and the Statutory Auditor has conducted "Limited Review" of the above Financial Results for the quarter and nine months ended on 31st December 2023 pursuant to Regulation 33 of SEBI (LODR)
- The Financial Results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, read with Rule 3 of Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accouting Standards) Amendment Rules, 2016.
- The previous period's figures have been regrouped / rearranged / reclassifed wherever necessary.
- The full format of the Financial Results are available on the stock exchange website and website of the company i.e www

For RISHI TECHTEX LIMITED

**Abhishek Patel** Managing Director Place: Mumbai Date: 7th February 2024 DIN: 05183410

Kopran Ltd. Kopran



				(Rs. In Lakhs)
		CONSOL		
PARTICULARS	Quarter	Nine months	Quarter	Year
	ended	ended	ended	ended
	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total Income from operation (net)	15,891.83	42,851.06	15,800.47	55,098.70
Profit for the period from ordinary activities before tax	2,050.78	4,236.77	913.71	3,606.59
Net Profit for the period from ordinary activities after tax	1,579.36	3,233.61	694.61	2,723.30
Total Comprehensive Income for the period after tax	1,584.00	3,248.33	700.97	2,754.01
Equity Share Capital (Face Value of Rs 10/- per share)	4,821.06	4,821.06	4,821.06	4,821.06
Reserve (excluding Revaluation Reserve as per balance sheet)				39,103.41
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)				
Basic:	3.28	6.71	1.44	5.65

Parijat House, 1076, Dr. E. Moses Road, Worli, Mumbai - 400 018.

Website: www.kopran.com, Email Id: investors@kopran.com, Tel. No.: 022-43661111

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023

(1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Disclosure Requirement) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.nseindia.com and www.bseindia.com), and on the Company's website www.kopran.com.

3.27

6.69

The above Statement of consolidated and standalone unaudited financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013, read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended and other accounting principles generally accepted in India. There is no

The above Statement of consolidated unaudited financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on February 07, 2024 and have been reviewed by the Statutory Auditors of the Company who have expressed unmodified conclusion.

FOR KOPRAN LIMITED Surendra Somani **Executive Vice Chairman** DIN: 00600860

1.44

5.65

Place: Mumbai

Dated: February 07, 2024

Diluted:



## CANTABIL RETAIL INDIA LIMITED

Regd. Office: B-16, Lawrence Road Industrial Area, Delhi - 110035 CIN: L74899DL1989PLC034995 Web-site: www.cantabilinternational.com Tel: 91-11-41414188 Telefax: 91-11-41414188

STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER **AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023** 

(₹ In Lakhs)

	Standalone							
		Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended	
	Particulars	December 31, 2023	September 30, 2023	December 31, 2022	December 31, 2023	December 31, 2022	March 31, 2023	
		Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Audited	
Α	Revenue from operations	17 <b>,44</b> 5.10	13,511.07	16,309.60	42,132.84	37,986.14	55,171.52	
В	Other Income	139.06	58.21	56.91	311.38	225.43	440.98	
1	Total Income from Operations (A+B)	17,584.16	13,569.28	16,366.51	42,444.22	38,211.57	55,612.50	
2	Net Profit for the Aeriod (before tax,							
	Exceptional and Extraordinary items)	3,094.08	880.38	3,617.52	5,498.51	6,731.67	8,927.43	
3	Net Profit for the period before Tax (after							
	Exceptional and Extraordinary items)	3,094.08	880.38	3,617.52	5,498.51	6,731.67	8,927.43	
4	Net Profit for the period (after Tax,							
	Exceptional and Extraordinary items)	2,410.46	749.68	2,695.35	4,387.28	5,035.60	6,723.63	
5	Total Comprehensive Income for the							
	period (after tax)	2,410.02	779.50	2,722.96	4,409.02	5,052.97	6,699.90	
6	Equity share capital (Face Value of							
	Rs. 2/- each)	1,632.76	1,632.76	1,632.76	1,632.76	1,632.76	1,632.76	
7	Reserves excluding revaluation reserves						20,503.67	
8	Earnings Per Share (EPS) in							
	₹ (Not Annualized)							
	(a) Basic (Re-stated)	2.95	0.92	3.30	5.37	6.17	8.24	
	Basic (Previous)		4.59	16.51		30.84	41.18	
	(b) Diluted (Re-stated)	2.95	0.92	3.30	5.37	6.17	8.24	
	Diluted (Previous)	-	4.59	16.51	-	30.84	<b>4</b> 1.18	

## Notes:

Place: New Delhi

Date: February 07,2024

- The above is an extract of the detailed format of quarter and nine months ended December 31, 2023. Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter ended are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com & www.nseindia.com) and on the Company's website www.cantabilinternational.com and also use the following link
  - NSE- https://www.nseindia.com/get-quotes/equity?symbol=CANTABIL
  - BSE- https://www.bseindia.com/stock-share-price/cantabil-retail-india-ltd/cantabil/533267/financials-results/
- Company Website- http://www.cantabilinternational.com/investor\_annual&quarterlyresult.html
- These results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as "Ind AS") 34 Interim Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time.
- The Company is primarily engaged in the business of "Retail" which constitutes a single reporting segment and the Executive Management Committee does not monitors the operating results of its business units separately for the purpose of making decisions about resource allocation and performance assessment. Segment performance is evaluated based on profit or loss and is measured consistently with profit or loss in the financial statements, thus there are no additional disclosures to be provided under Ind AS 108 - "Operating Segments".
- The Board of Directors of the Company at their meeting held on 18th January, 2024 had considered and approved the preferential issue of 20,00,000 equity shares of face value of Rs. 2/- each of the Company to Think India Opportunities Master Fund LP, an exempted limited partnership formed under the laws of Cayman Islands situated at United Kingdom in accordance with Chapter V of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("ICDR Regulations"), as amended and other applicable laws, at a price of Rs. 252/- per Equity Share (including security premium of Rs 250/- per Equity Share) subject to the approval of the shareholders of the company at the Extraordinary General Meeting to be held on February 14, 2024.
- The Board of Directors of the Company at their meeting held on 12th August, 2023 had considered and approved the Stock Split/ Sub-Division of every 1 equity share of the Nominal/Face value of Rs. 10/- each into 5 equity shares of the Nominal/Face value of Rs. 2/- each and the same has been approved by the shareholders of the Company at the Annual General Meeting held on September 28, 2023. Further the Board of Directors of the Company at their meeting held on 21st October, 2023 has approved the Record Date November 02, 2023, for the stock split. Post record date, equity shares increased from 16327608 shares to 81638040 shares. Accordingly, as per Indian Accounting Standard -33 "Earnings per Share", Basic & Diluted earing per share for the quarter and nine months ended 31st December 2023 has been calculated and Basic & Diluted earing per share of previous period has been restated.
- The Board of Directors of the company has considered and declared interim dividend of Rs.0.40/- (Paisa Forty Only) per share i.e. @20% of face value of equity share of Rs. 2/- (Rupees Two only) each, fully paid up, during the quarter and period ended December 31, 2023 in its meeting held on February 7, 2024.
- The standalone figures for the quarter ended December 31, 2023 are the balancing figures between unaudited year to date figures up to December 31, 2023 and the unaudited year to date figures up to September 30, 2023, being the date of the end of the second quarter of the financial year which were subjected to limited review.
- The figures of the previous periods (quarter/nine months/year) have been regrouped/rearranged/reclassified wherever considered necessary.

For Cantabil Retail India Limited Sd/-(Vijay Bansal) Chairman & Managing Director **DIN 01110877** 

SEPC

**SEPC LIMITED** 

CIN: L74210TN2000PLC045167 Regd. Office: 4th Floor, BASCON FUTURA SV IT Park, Venkatanarayana Road, Parthasarathy Puram, T. Nagar, Chennai, TamilNadu, India, 600017. www.sepc.li

### **POSTAL BALLOT NOTICE**

Members are hereby informed that pursuant to Section 110 and Section 108 o the Companies Act, 2013 ("Act") read with Rules 22 and 20 of the Companies Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and n compliance with the circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, the Company on Wednesday, February 07, 2024, has completed electronic despatch o the Postal Ballot notice seeking approval to increase the Authorised Share Capital o the company and consequent amendment in the Memorandum of Association along with the explanatory statement, through email to the Members whose email IDs are registered in the records of the Depositories/ Company's Registrar and Transfe Agent viz. Cameo Corporate Services Limited.

Members whose names appear on the Register of Members /Register of Beneficia Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off Date for remote e-Voting. i.e. Friday, February 02, 2024 shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting The voting rights have been reckoned on the paid-up value of the equity shares registered in the name of the Members as on the cut-off date as mentioned above person who is not a member on the cut-off date should treat this notice fo information purpose only.

The Postal Ballot Notice is available on the Company's website https://www.sepc.in/ and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at https://www.bseindia.com/ & National Stock Exchange of India Limited a www.nseindia.com and on the website of CDSL(agency providing the Remote e-Voting facility for the postal ballot) i.e. www.evotingindia.com.

Instruction for e-Voting: The Company has engaged the services of Centra Depository Services Limited (CDSL) for providing to its members the facility of remote e-Voting to exercise their right to vote on the resolutions proposed in the said Postal Ballot Notice only by electronic means. The communication of the assent of dissent of the members would take place through remote e-Voting process only Members can cast their votes during the period mentioned herein below.

#### Commencement of remote e-Voting: Thursday, February 08, 2024, at 9:00 A.M and End of remote e-Voting: Friday, March 08, 2024, at 5:00 P.M.

Members will not be able to cast their vote through remote e-Voting beyond the saic date and time and the remote e-Voting module shall be disabled by CDSL thereafter In terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December . 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders polding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants by way of a single logir

he members of the Company are also hereby informed and requested to note that ) The necessary instruction for remote e-voting has been set out in the Notice of

Postal Ballot dated January 29, 2024.

- Once the vote on the resolution is cast by the Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently or cast vote again.
- The voting rights of the Members shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-oft date i.e. Friday February 02, 2024.
- D The Postal Ballot Notice can also be downloaded from the Company's website https://www.sepc.in/
- ) Any query/grievance in relation to voting by electronic means can be addressed to Mr. T Sriraman, the Company Secretary and Compliance Officer by sending the email to tsr@sepc.in. or M/s. Cameo Corporate Services Limited, Subramaniar Buildings, 5th Floor, No.1, Club House Road, Chennai - 600 002, who are Registral and Share Transfer Agent. Telephone No. 044- 4002 0700 / 710. Email to investor@camenindia.com or CDSI Toll Free No 1800, 2255, 33. Email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. In case of any member whose name appears in the Register of Members/ List of Beneficial Owners as on the cut-off date has not received the Postal Ballot Notice, he/she may write to tsr@sepc.in/ o investor@cameoindia.com.

The Board of Directors have appointed Mr. M. Alagar of M/s. M. Alagar & Associates Practising Company Secretaries, Chennal as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner. The results of remote -Voting for Postal Ballot along with the Scrutinizer's Report will be declared by the Chairperson or any one of the Directors / Authorised Signatory of the Company a the Registered Office the Company and communicated to BSE Limited & National Stock Exchange of India Limited and also displayed on the Company's website i.e. nttps://www.sepc.in/ and on the website of Central Depository Services Limited (CDSL)www.evotingindia.com

for SEPC LIMITED Place : Chennai T SRIRAMAN Date : February 07, 2024 **Company Secretary** 

#### ADVANI HOTELS & RESORTS (INDIA) LIMITED (CIN: L99999MH1987PLC042891)

Tel: (91-22) 22850101

chresortgoa.com EMAIL: cs.ho@advanihotels.con

## NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given to the Members of ADVANI HOTELS & RESORTS (INDIA) LIMITED "Company") that, pursuant to and in compliance with the provisions of Section 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013 ('Act') read with Rule 20 and Rule 22 of the Companie (Management and Administration) Rules, 2014, ('Rules'), Regulation 44 of the Securiti Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations'), Secretarial Standard-2 on General Meetings ('SS-2') issued by The Institute of Company Secretaries of India and other applicable provisions of the Act and Rules made thereunder and the SEBI Listing Regulations, as amended from time to time including any statutory modification(s) or reenactment(s) thereof for the time being in force and in terms of Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 as also the circular the above issued from time to time by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/ HO/CFD/CFD-POD/2/P/CIR/2023 dated 7/10/2023 and circulars preceding thereto issued to as 'the Circulars'), the Resolution as set out in the Notice for issue of Bonus Shares, seeking approval of the members of the Company is proposed by way of an Ordinary Resolution through Postal Ballot only, by voting through electronic means ("Postal Ballot" / "Remot -Voting')

In terms of the said MCA Circulars, the Company has, on February 7, 2024, sent the Notice of Postal Ballot dated January 29, 2024, together with an Explanatory Statement and instruction of remote e-voting through an e-mail to the Members, who have registered their e-mail address with the Depository Participant(s) or the Company or the Company's Registrar & Transfe Agents i.e. M/s Datamatics Business Solutions Limited ('RTA') and whose names appeared in the Register of Members / List of Beneficial Owners maintained by the RTA / Depositories a on the 'Cut-off date' i.e. Friday, February 2, 2024.

The communication of the 'assent' or 'dissent' of the Members would take place through the e-voting system only. The voting rights of the Members shall be reckoned as on the 'Cut-Off Date' i.e. Friday, February 2, 2024. A person who is not a member as on the 'Cut-Off Date' should treat the Notice of Postal Ballot for information purpose only. The copy of the Postal Ballot Notice is available on the Company website viz. https://www.caravelabeachresortgoa.com/ and on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, NSE Limited at www.nseindia.com and on the website o

NSDL. i.e. www.evoting.nsdl.com. Websites of the Stock Exchanges i.e. The BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. Members who do not receive the Postal Ballot Notice may download it from the above-mentioned websites

The Board of Directors has appointed Mr. Avinash Bagul (Membership No.F5578 / CP No.19862), a Partner of BNP & Associates, Practicing Company Secretaries, or failing him, Mr. K Venkataraman (Membership No. A 8897 / CP No. 12459), a Partner of BNP & Associates Practicing Company Secretaries, Mumbai, as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballo e-voting process in a fair and transparent manner.

n compliance with the provisions of Sections 108 and 110 of the Act read with Rules 20 and 22 of the Rules, Regulation 44 of the Listing Regulations, and SS-2, the Company is pleased o provide e-voting facility to its Members, to enable them to cast their votes electronically The detailed procedure with respect to e-voting is mentioned in this Notice. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") for facilitating e-voting. The Company has made necessary arrangements with the RTA to enable the Members to register their e-mail address. Those Members who have not yet registered their e-mail ass are requested to register the same by following the procedure set out in this Posta

Members are requested to provide their 'assent' or 'dissent' through e-voting only. The details procedure for e-voting is enumerated in the Notes to the Postal Notice. Members are reo note that the e-voting shall commence from Thursday, February 8, 2024 at 9.00 a.m. and ends on Friday, March 8, 2024 at 5.00 p.m. (IST) (both days inclusive)

Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addre with the Company are requested to update their email addresses by writing to the Company a cs.ho@advanihotels.com or to the RTA at investorsqry@datamaticsbpm.com along with the copy of the signed request letter mentioning the name and address of the Member self-attested copy of the PAN Card and self-attested copy of any of the document (e.g.: Driving icense, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member Members holding shares in dematerialised mode are requested to register / update their email addresses with the relevant DPs. In case of any queries / difficulties in registering the email address, please write to the Company at cs.ho@advanihotels.com or to the RTA at nvestorsqry@datamaticsbpm.com.

The result of the evoting by Postal Ballot will be announced on or before March 10, 2024 at the Registered Office of the Company and shall be available on the Company's website and on he websites of the Stock Exchanges

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll-free nos.: 022 4886 7000 and 022 2499 7000 or send a request to Mr. Sanjeev Yadav at evoting@nsdl.com.

CARAVELA





Date: February 7, 2024

Sunder G. Advant Chairman & aging Director DIN: 00001365

By order of the Boar For Advani Hotels &

Resorts (India) Ltd.

Place: Mumbal

Ballot Notice.

# रिकॉर्ड रिटर्न दे रहीं पीएसयू: प्रधानमंत्री

## देश में 2014 में 234 सार्वजनिक उपक्रम थे, लेकिन आज इनकी संख्या 254 हुई

अर्चिस मोहन

=धानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्य सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सावर्जनिक क्षेत्र की कंपनियां रिकॉर्ड रिटर्न दे रही हैं और इन पर निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री कहा कि देश में 2014 में 234 सार्वजनिक उपक्रम थे. लेकिन आज इनकी संख्या 254 है। इनका लाभ 2.5 लाख करोड़ रुपये बढ़ चुका है। उन्होंने कहा कि आज पीएसय की नेटवर्थ 17 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, जो 2014 में केवल 9.5 लाख करोड़ रुपये ही था।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं आजाद भारत में पैदा हुआ हूं और मेरे ख्वाब भी आजाद हैं। कांग्रेस कहती है कि हमने पीएसय को बेच दिया और बरबाद कर दिया।

निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और एमटीएनएल को किसने बरबाद किया। कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) की हालत को याद कीजिए। उन्होंने एचएएल और एयर इंडिया को बरबाद कर दिया। कांग्रेस और संप्रग अपनी नाकामियों को छुपा नहीं सकते। जिस बीएसएनएल कंपनी का कांग्रेस ने दम घोंट दिया था. वह आज 4जी और 5जी की तरफ दौड़ रही है। इसी प्रकार एचएएल ने रिकॉर्ड राजस्व पैदा किया है और यह एशिया की सबसे बड़ी हेलिकॉप्टर निर्मात फैक्टरी बन गई है। आज भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के शेयर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि 10 साल से पहले पीएसय का सकल मुनाफा करीब सवा लाख करोड़ रुपये था लेकिन बीते दस साल में यह ढाई लाख करोड़ रुपये रहा है। प्रधानमंत्री के मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भारत संचार 🛮 संबोधन के दौरान विपक्षी सदस्यों की ओर 📉 तमाम पीएसयू आज खतरे में हैं, क्योंकि 🗷 दोस्तों को बेचने में व्यस्त हैं। कांग्रेस इसका



राज्य सभा में बुधवार को चर्चा का जवाब देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

एक-एक शब्द को सुनते रहे हैं।

से टोका-टोकी किए जाने पर मोदी ने कहा आज की सरकार उन्हें बेचने में व्यस्त है। कि वह बडे धैर्य और नम्रता के साथ उनके इस समय ओडिशा के संदरगढ जिले में मौजुद भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस के महासचिव (संचार) जयराम राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में रमेश ने रमेश ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस की कहा कि पंडित नेहरू ने देश में अनेक पूर्ववर्ती सरकार द्वारा खड़े किए गए सार्वजनिक उपक्रम स्थापित किए, लेकिन राउरकेला इस्पात संयंत्र ( आरएसपी ) समेत आज सभी खतरे में हैं। मोदी उन्हें अपने

### देश को न बांटे कांग्रेस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधवार को कांग्रेस और उसके नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार से देश को उत्तर और दक्षिण में बांटने वाला विमर्श न गढ़ने का आग्रह करते हुए कहा कि यह देश के भविष्य को खतरे में डालता है। राज्य सभा में उन्होंने अफसोस जताया कि कर्नाटक सरकार विज्ञापनों के जरिये इस तरह की कहानी गढ़ रही है। मोदी कर्नाटक के मख्यमंत्री सिद्धरमैया के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर-मंतर पर कांग्रेस के धरने का जिक्र कर रहे थे।

विरोध करती रहेगी।

उन्होंने कहा कि देश के आर्थिक इतिहास में राउरकेला का विशेष महत्त्व है। कांग्रेस ने आरएसपी, नैशनल एल्युमीनियम कंपनी, एनटीपीसी और कई बड़े प्रोजेक्ट ओडिशा में स्थापित किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों क कारण आज उनमें कोई भी सुरक्षित नहीं है।

# केंद्र के खिलाफ सड़क पर कर्नाटक के मंत्री

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के नेतत्व में कांग्रेस की प्रदेश इकाई के कई नेताओं ने कर राजस्व वितरण में राज्य के साथ हुए 'अन्याय' को लेकर बुधवार को केंद्र के खिलाफ नई दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया और प्रदेश के हिस्से की राशि तत्काल जारी करने की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन में उपमुख्यमंत्री और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार, राज्य के कई सांसद, मंत्री और विधायक शामिल हुए।

कांग्रेस का आरोप है कि पिछले कछ वर्षों में कर राजस्व में उसके प्रदेश के हिस्से की राशि के हस्तांतरण और सहायता अनुदान में कर्नाटक के साथ 'अन्याय' किया गया है। विरोध प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार 15वें वित्त आयोग के तहत कर्नाटक को कथित तौर पर हुए उठा रहे हैं।'



1.87 लाख करोड़ रुपये के नकसान की भरपाई करे। सिद्धरमैया ने कहा कि यह विरोध भाजपा के खिलाफ नहीं, बल्कि कर्नाटक के साथ भेदभाव के खिलाफ है। उन्होंने भाजपा के इस आरोप को खारिज किया कि इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य उत्तर-दक्षिण विभाजन को बढ़ावा देना है। सिद्धरमैया ने कहा, 'हम भारत सरकार द्वारा कर्नाटक और अन्य दक्षिणी राज्यों के साथ किए गए भेदभाव का मुद्दा

## दिल्ली आबकारी मामला

## अदालत ने केजरीवाल को 17 फरवरी को तलब किया

दिल्ली की एक अदालत ने समन का पालन न करने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को तलब किया है। ईडी ने आबकारी नीति से संबंधित एक धन-शोधन मामले में पृछताछ के लिए केजरीवाल को समन भेजे थे। राष्ट्रीय राजधानी में आबकारी नीति को समाप्त कर दिया गया था।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने कहा, 'शिकायत पर संज्ञान ले लिया गया है और उन्हें 17 फरवरी को तलब होने के लिए आदेश जारी किया जा रहा है।' न्यायमूर्ति ने ईडी द्वारा मामले में दलीलें पूरी करने के बाद आदेश सुरक्षित रखे लिया था। ईडी गया था।



ने केजरीवाल के खिलाफ समन का पालन न करने पर तीन फरवरी को एक नया शिकायती मामला दर्ज कराया था। मुख्यमंत्री पिछले शुक्रवार को ईडी के पांचवें समन पर भी पछताछ के लिए पेश नहीं हुए जो उन्हें बुधवार को जारी किया

# उत्तराखंड: यूसी विधेयक पारित

को बहुचर्चित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया। समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड 2024 को मुख्यमंत्री पष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सदन के पटल पर रखा था जिस पर दो दिनों तक लंबी चर्चा हुई। इस विधेयक को पारित कराने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। विधेयक पर चर्चा के आखिर में मख्यमंत्री ने इस विधेयक को ऐतिहासिक बताते हुए सभी सदस्यों से इस मिलकर इसे पारित कराने का अनरोध किया। विधेयक को ध्वनि मत से पारित किया गया। विधेयक के पारित होने के दौरान सदन में 'जय श्रीराम' और 'भारत माता की जय' के जमकर नारे लगे।

उत्तराखंड विधानसभा में बधवार

धामी ने कहा, 'यह विधेयक गया है।



प्रधानमंत्री जी (नरेंद्र मोदी) द्वारा देश को विकसित, संगठित, समरस और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए किए जा रहे महान यज्ञ में हमारे प्रदेश द्वारा अर्पित की गई एक आहति मात्र है।' उन्होंने कहा कि युसीसी विधेयक के तहत जाति. धर्म, क्षेत्र व लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानुनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया

# बलूचिस्तान में विस्फोट, 30 म

**पाकिस्तान** में आम चुनाव से एक दिन पहले बधवार को बलचिस्तान प्रांत में चुनाव कार्यालयों को निशाना बनाकर किए गए दो बम विस्फोटों में कम से कम 40 लोग मारे गए और 30 अन्य घायल हो गए।पहली घटना में, पिशिन जिले में निर्दलीय उम्मीदवार असफंदयार खान काकड के कार्यालय के बाहर एक ने भीषण विस्फोट में 20 लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हो। गए। एक घंटे से भी कम समय के बाद, किला अब्दुल्ला क्षेत्र में जमीयत उलेमा इस्लॉम (जेयुआई) के चुनाव कार्यालय के बाहर एक और बम विस्फोट हुआ, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई और 22 अन्य घायल हो गए। दोनों विस्फोटों की जिम्मेदारी किसी समह या

बलूचिस्तान के पंजगुर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अब्दुल्ला जहरी रही है।'

व्यक्ति ने नहीं ली है।



कि बताया असफंदयार खान काकड के चनाव कार्यालय के बाहर एक बैग में बम रखा गया था जिसमें 'टाइमर' लगा था। उन्होंने कहा, 'कुछ घायलों की हालत गंभीर है और उन्हें इलाज के लिए क्वेटा ले जाया गया है।' जहरी ने कहा, 'आतंकवादी लोगों को मतदान केंद्रों पर जाने से रोकने के लिए उम्मीदवारों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन चुनाव तय समय पर हो यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षाकर्मियों की संख्या बढ़ाई जा



## CANTABIL RETAIL INDIA LIMITED

Regd. Office: B-16, Lawrence Road Industrial Area, Delhi - 110035 CIN: L74899DL1989PLC034995 Web-site: www.cantabilinternational.com Tel: 91-11-41414188 Telefax: 91-11-41414188

STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023

(₹ In Lakhs)

							(t III Eakilo
		Standalone					
		Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
	Particulars	December 31, 2023	September 30, 2023	December 31, 2022	December 31, 2023	December 31, 2022	March 31, 2023
		Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Audited
Α	Revenue from operations	17,445.10	13,511.07	16,309.60	42,132.84	37,986.14	55,171.52
В	Other Income	139.06	58.21	56.91	311.38	225.43	440.98
1	Total Income from Operations (A+B)	17,584.16	13,569.28	16,366.51	42,444.22	38,211.57	55,612.50
2	Net Profit for the Aeriod (before tax,						
	Exceptional and Extraordinary items)	3,094.08	880.38	3,617.52	5,498.51	6,731.67	8,927.43
3	Net Profit for the period before Tax (after						
	Exceptional and Extraordinary items)	3,094.08	880.38	3,617.52	5,498.51	6,731.67	8,927.43
4	Net Profit for the period (after Tax,						
	Exceptional and Extraordinary items)	2,410.46	749.68	2,695.35	4,387.28	5,035.60	6,723.63
5	Total Comprehensive Income for the						
	period (after tax)	2,410.02	779.50	2,722.96	4,409.02	5,052.97	6,699.90
6	Equity share capital (Face Value of						
	Rs. 2/- each)	1,632.76	1,632.76	1,632.76	1,632.76	1,632.76	1,632.76
7	Reserves excluding revaluation reserves						20,503.67
8	Earnings Per Share (EPS) in						
	₹ (Not Annualized)						
	(a) Basic (Re-stated)	2.95	0.92	3.30	5.37	6.17	8.24
	Basic (Previous)		4.59	16.51		30.84	41.18
	(b) Diluted (Re-stated)	2.95	0.92	3.30	5.37	6.17	8.24
	Diluted (Previous)	-	4.59	16.51	-	30.84	41.18

### Notes:

Place: New Delhi

Date: February 07,2024

The above is an extract of the detailed format of quarter and nine months ended December 31, 2023. Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter ended are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com & www.nseindia.com) and on the Company's website www.cantabilinternational.com and also use the following link

NSE- https://www.nseindia.com/get-quotes/equity?symbol=CANTABIL

BSE- https://www.bseindia.com/stock-share-price/cantabil-retail-india-ltd/cantabil/533267/financials-results/

Company Website- http://www.cantabilinternational.com/investor\_annual&quarterlyresult.html

- These results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as "Ind AS") 34 Interim Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time. The Company is primarily engaged in the business of "Retail" which constitutes a single reporting segment and the Executive Management Committee
- does not monitors the operating results of its business units separately for the purpose of making decisions about resource allocation and performance assessment. Segment performance is evaluated based on profit or loss and is measured consistently with profit or loss in the financial statements, thus there are no additional disclosures to be provided under Ind AS 108 – "Operating Segments". The Board of Directors of the Company at their meeting held on 18th January, 2024 had considered and approved the preferential issue of 20,00,000 equity
- shares of face value of Rs. 2/- each of the Company to Think India Opportunities Master Fund LP, an exempted limited partnership formed under the laws of Cayman Islands situated at United Kingdom in accordance with Chapter V of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("ICDR Regulations"), as amended and other applicable laws, at a price of Rs. 252/- per Equity Share (including security premium of Rs 250/- per Equity Share) subject to the approval of the shareholders of the company at the Extraordinary General Meeting to be held on February 14, 2024.
- The Board of Directors of the Company at their meeting held on 12th August, 2023 had considered and approved the Stock Split/ Sub-Division of every 1 equity share of the Nominal/Face value of Rs. 10/- each into 5 equity shares of the Nominal/Face value of Rs. 2/- each and the same has been approved by the shareholders of the Company at the Annual General Meeting held on September 28, 2023. Further the Board of Directors of the Company at their meeting held on 21st October, 2023 has approved the Record Date November 02, 2023, for the stock split. Post record date, equity shares increased from 16327608 shares to 81638040 shares. Accordingly, as per Indian Accounting Standard -33 "Earnings per Share", Basic & Diluted earing per share for the quarter and nine months ended 31st December 2023 has been calculated and Basic & Diluted earing per share of previous period has been restated.
- The Board of Directors of the company has considered and declared interim dividend of Rs.0.40/- (Paisa Forty Only) per share i.e. @20% of face value of equity share of Rs. 2/- (Rupees Two only) each, fully paid up, during the quarter and period ended December 31, 2023 in its meeting held on February 7, 2024.
- The standalone figures for the quarter ended December 31, 2023 are the balancing figures between unaudited year to date figures up to December 31, 2023 and the unaudited year to date figures up to September 30, 2023, being the date of the end of the second quarter of the financial year which were subjected to limited review.
- The figures of the previous periods (quarter/nine months/year) have been regrouped/rearranged/reclassified wherever considered necessary.

For Cantabil Retail India Limited Sd/-(Vijay Bansal)

Chairman & Managing Director **DIN 01110877**